



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

1 कार्तिक, 1940 (श०)

संख्या- 986 राँची, मंगलवार,

23 अक्टूबर, 2018 (ई०)

---

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।**

-----  
संकल्प

23 अक्टूबर, 2018

**विषय:-** भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report) आलेखन हेतु प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार का पुनर्निर्धारण के संबंध में।

**पत्र संख्या-14/विविध-02/2016-5674--** गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का दिनांक 1 अप्रैल, 2016 के प्रभाव से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window (SPARROW) System लागू किये जाने एवं इस प्रावधान के अन्तर्गत तैयार किये गये SPARROW Software में निहित व्यवस्था के आलोक में झारखण्ड संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report) आलेखन हेतु विभागीय संकल्प सं०-1162, दिनांक 27 फरवरी, 2017 के माध्यम से प्राधिकारों का निर्धारण किया गया है। SPARROW Application अनुप्रयोग के क्रम में कतिपय गत्यावरोध/ कठिनाई दृष्टिगत हुए हैं। जिसके सरलीकरण हेतु प्राधिकार निर्धारण में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

**पुलिस मुख्यालय झारखण्ड, राँची :-**

क्रम सं०	प्रतिवेदित पदा० का नाम	प्रतिवेदक पदा० के पदनाम	समीक्षी पदा० का पदनाम	स्वीकरण पदा० का पदनाम
01	सभी पुलिस अधीक्षक (जिला पुलिस अधीक्षक को छोड़ कर)	संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक/ अथवा पुलिस महानिरीक्षक	संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिदेशक	पुलिस महानिदेशक अथवा संबंधित महानिदेशक
02	सभी समादेष्टा (आई०आर०बी० सहित)	संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक अथवा पुलिस महानिरीक्षक	संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक	पुलिस महानिदेशक
03	ए०आई०जी०-सह- स्पेशल असिस्टेंट टू डी०जी०पी०	महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक	महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक	महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची :-**

क्रम सं०	प्रतिवेदित पदा० का नाम	प्रतिवेदक पदा० के पदनाम	समीक्षी पदा० का पदनाम	स्वीकरण पदा० का पदनाम
01	सभी पुलिस अधीक्षक, भ्र०नि०ब्यूरो	पुलिस उप महानिरीक्षक अथवा पुलिस महानिरीक्षक भ्र० नि० ब्यूरो	अपर पुलिस महानिदेशक भ्र० नि० ब्यूरो	निगरानी आयुक्त

2. झारखण्ड राज्य में अपर पुलिस अधीक्षक एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के रूप में नवनियुक्त भा०पु०से० के पदा० के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :-

क्रम सं०	प्रतिवेदित पदा० का नाम	प्रतिवेदक पदा० के पदनाम	समीक्षी पदा० का पदनाम	स्वीकरण पदा० का पदनाम
01	अपर पुलिस अधीक्षक / अनुमंडल पुलिस पदा०	पुलिस अधीक्षक अथवा वरीय पुलिस अधीक्षक	उपायुक्त	पुलिस उप महानिरीक्षक अथवा पुलिस महानिरीक्षक

नोट:- 1. भा०पु०से० के पदाधिकारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु किसी निर्धारित पद पर प्रतिवेदक पदाधिकारी की पदस्थापना नहीं रहने पर समीक्षी

पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदक पदाधिकारी के स्थान पर अभियुक्ति अंकित किया जा सकेगा।

2. प्रतिवेदक / समीक्षी/ स्वीकरण पदाधिकारी के पद पर एक से अधिक पदाधिकारी की पदस्थापना रहने पर नीचे की पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा अभियुक्ति आलेखन किया जाएगा।

उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या- 1162, दिनांक 27 फरवरी, 2017, जिसके द्वारा झारखण्ड संवर्ग के भा०पु०से० के पदाधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु प्राधिकार निर्धारित किया गया था, को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

3. यह व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----